



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48। नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2004 (अग्रहायण 6, 1926)
No. 48। NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 27—DEC. 3, 2004 (AGRAHAYANA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं० आरएस०/4(V)/2004/90-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में श्री प्रेम शंकर वर्मा को 8 नवम्बर, 2004 के पूर्वानुष्ठान से नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों सहित 8000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में राज्य सभा सचिवालय में अस्थायी कनिष्ठ संसदीय वृत्त लेखक के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० र० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० आरएस०/1/2004/91-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने भारतीय रक्षा सचिवालय के अधिकारियों (1978) श्री रवि कान्त चौपड़ा को 11 नवम्बर, 2004 के अनुराह्न से अथवा अ.ग.मो आदेशों तक 18,400-500-22,400 रु० के

वेतनमान में राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनिधिक आधार पर नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० र० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं० एफ 15/35, जो एन-5281/ए एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 21-23 मई, 2004 तथा 4 सितम्बर, 2004 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक सक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद के लिए चयन होन के पारणामस्वरूप श्री राम लाल यादव को 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 5 नवम्बर, 2004 के पूर्वानुष्ठान से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 5 नवम्बर, 2004 से 4 नवम्बर 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परामर्शदाता रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परस्पर दरिफ़ता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सोएस अदश प्रख्या पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं० 14016/9/2004-यू०टी०एस०-II--संयुक्त सचिव (यू० टी०), गृह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ड) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निरीक्षक (डी-1/458) श्री ज्ञान चंद को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

एन० जे० थामस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2004

सं० 20/जी/2643-प्रशा० I--राष्ट्रपति, श्री बलेश्वर राय, भा०प्र०से० (एजोएमयू : 70) को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सचिव के रूप में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2004

सं० I-45014/3/2004-आईपीएस-I--भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के 1994 बैच के पदोन्नत अधिकारी श्री एस० राजन को अब सभी प्रयोजनों के लिए श्री बी० एस० राजहन के नाम से जाना एवं माना जाएगा।

एस० पी० वर्मा, उप सचिव

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2004

सं० 11019/34/2004-अ० भा० से०-(III)--राष्ट्रपति यह निर्देश देते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को राजस्थान

संवर्ग की अधिकारी श्रीमती सुखदीप बराड़ (रजस्थान : 79) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाए।

जी० सी० पाण्डेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2004

सं० ए-12025/4/98.ई० जी०--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्न कनिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से नियुक्त करते हैं :-

नाम	से प्रभावी
श्री संदीप सिंह	12-01-1998

2. उपरोक्त अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय में कार्यरत हैं।

एन० पी० सिंह, अवर सचिव

सं० ए-12025/1/2004-ई० जी०--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	से प्रभावी
1.	सुश्री अतूषा सिन्हा	05-09-2002
2.	श्री अतिथ्या दासगुप्ता	16-12-2002
3.	सुश्री रोली एस० माल्गे	02-09-2002
4.	श्री विजय नाना लाल कोठारी	18-12-2002
5.	सुश्री सुधा राजन	02-09-2002
6.	सुश्री सुहसिनी मधुसूदन जी	-वही-
7.	श्री राजीव कुमार	-वही-
8.	श्री संजय कुमार	-वही-
9.	श्री राजेश गौड़ा एमबी	-वही-

2. सभी 9 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालयों में कार्यरत हैं।

एन० पी० सिंह, अवर सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपोलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली-01, दिनांक 05 अक्तूबर 2004

संदर्भ सं० 1/1/2004—दिनांक 01-09-2004 (10, भाद्रपद 1926 शक) मिसिल सं० 1/1/2004-प्रशा० केन्द्रीय सरकार सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के सहायक

श्री बी० एन० झा को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपोलीय प्राधिकरण में दिनांक 01-09-2004 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि या इस प्राधिकरण के लोप होने तक, जो भी पहले घटित हो, 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर बतौर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

इनवंत किशोर, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

गंभीर घोखाघड़ी अन्वेषण कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० 2/2/2004-प्रशा० गं०घो०अ०का०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए पदों पर तथा वर्णित तिथियों से, 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, गंभीर घोखाघड़ी अन्वेषण कार्यालय, कम्पनी कार्य मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	सेवा जिससे संबंधित है	पद जिस पर नियुक्ति हुई है/वेतनमान	ग्रुप	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वश्री आशीष वर्मा	आई०आर०एस०	अतिरिक्त निदेशक 14,300-400-18,300	'ए'	10-9-2003
2.	एस० वासुदेवन	आई०ए० व ए० एस०	संयुक्त निदेशक 12,000-375-16,500	'ए'	15-9-2003
3.	बुध्नीर दिनकर सामंत	डी०जी०एम०, एस०बी०आई०	संयुक्त निदेशक 12,000-375-16,500	'ए'	4-9-2003
4.	शरद कृष्ण शर्मा	डी०जी०एम०, सेबी	संयुक्त निदेशक 12,000-375-16,500	'ए'	3-8-2003
5.	हेनरी रिचर्ड	भा०क०अ० सेवा	संयुक्त निदेशक 12,000-375-16,500	'ए'	31-7-2003
5.	श्रीमती मेघा एच० दल्वी	निदेशक/आई०टी०/ एन०आई०सी०	अतिरिक्त निदेशक 14,300-400-18,300	'ए'	6-10-2003
7.	अशोक कुसार	भा०वि० सेवा	संयुक्त निदेशक 12,000-375-16,500 भा०वि० सेवा में एमकेडि पोस्ट	'ए'	15-10-2003
8.	पुनीत रस्तोगी	भा०पु०से० (म०वि०-95)	संयुक्त निदेशक 12000-375-16500/-	'ए'	25-10-2004
9.	सुबोध कुमार चिल्डियाल	गृह म० का सी०एस०एस०कैंडर	उप निदेशक 10000-325-15200/-	'ए'	29-8-2003 (अप०)
10.	हीरा सिंह नेगी	आयकर अधिकारी, दिल्ली	वरिष्ठ सहायक निदेशक 7500-250-12000/-	'बी'	18-9-2003 को सहायक राज- निदेशक के पद पर पत्रित एवं दि० 21-4-2004 को वरिष्ठ सहा० निदे० के पद पर 5-2-2004
11.	जी० गणेश काक्	आयकर अधिकारी, चेन्नई	वरिष्ठ सहायक निदेशक 7500-250-12000/-	उपरोक्त	को सं० निदे० के पद पर एवं दि० 21-4-04 को व० सं० नि० के पद पर

1	2	3	4	5	6
12.	प्रीतपाल सिंह	कस्टम विभाग कलकत्ता	वरिष्ठ सहायक निदेशक 7500-250-12000/-	'बी'/राजपत्रित	22-9-2004
13.	दिनेश कुमार	वरिष्ठ मैनेजर, इण्डियन बैंक	सहायक निदेशक 6500-200-10500/- (सैकण्डमेंट आधार पर)	उपरोक्त	22-2-2003 (अप०)
14.	संजीव कुमार गौड़	मैनेजर (ओ०बी०) एस० बी० आई०	सहायक निदेशक 6500-200-10500/-	उपरोक्त	29-9-2003
15.	रबी बरुआ	व० त० सहा० हेड० क० का० मंत्रालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500/-	उपरोक्त	29-8-2003
16.	रविन्द्र कुमार बरुशी	व० त० सहा० हेड० क० का० मंत्रालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500/-	उपरोक्त	15-9-2003
17.	अमित मित्तल	मैनेजर, सेबी मुम्बई	सहायक निदेशक 6500-200-10500/-	उपरोक्त	22-9-2003
18.	संतोष के० नायर	ए० सी० आई० ओ-I, आई० बी०	सहायक निदेशक 6500-200-10500/-	उपरोक्त	1-10-2003
19.	अश्विन राठौर	ए० सी० आई० ओ-I, आई० बी०	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	1-10-2003
20.	सुभाष चन्द्र सरसोनिया	मैनेजर/आई०बी०/ एसबीआई	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	20-10-2003
21.	मोहन सिंह	सहा० प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	17-10-2003 (अप०)
22.	श्रीमति हरप्रोत कौर	वैज्ञानिक-'बी' एन०आई०सी०	सहायक निदेशक 6500-200-10500 (सैकण्डमेंट आधार पर)	उपरोक्त	17-10-2003
23.	जी० राम मोहन राव	स० जनरल मैनेजर, सेबी, मुम्बई	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	27-10-2003
24.	गिरराज सिंह	वरिष्ठ ऑडिटर सी०ए०जी० कार्यालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	29-10-2003 (अप०)
25.	संदीप अग्रवाल	स० प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	31-10-2003 (अप०)
26.	वेद प्रकाश वर्मा	स० प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	31-10-2003 (अप०)
27.	बी० मदनगोपालराज	ए०सी०आई०ओ-I, आई० बी०	सहायक निदेशक 6,500-200-10,500	उपरोक्त	24-11-2003
28.	प्रमोद बेरी	वरिष्ठ ऑडिटर सी०ए०जी० कार्यालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	31-3-2004
29.	बी० एस० नेगी	वरिष्ठ ऑडिटर सी०ए०जी० कार्यालय	सहायक निदेशक 6500-200-10500	उपरोक्त	31-3-2004

1	2	3	4	5	6
30.	एम० ओ० राँध	निरीक्षक, के०अ० झूरो, ए०सी०वी, मुम्बई	सहायक निदेशक ब० 6500-200-10500	'बी' राजमित्र	14-7-2004
31.	एन० रामाचन्द्रन	वाणिज्य मंत्रालय का सी०एस०एस० एस० कैंडर	मिजी सचिव ब० 6500-200-10500	उपरोक्त (अप०)	29-8-2003

कुल्लू व. कुमार विश्वविद्यालय, जय. निदेशाया (अ.प्र.०.)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं० ए-19011/14/2000-एच० आर० II--राष्ट्रपति,
नियमित लेखाकार श्री एस० भारद्वाज की इस विभाग में
र० 8000-275-13500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक
(जहाजरानी) के पद पर उनको प्रतिनिधित्व की अवधि को
अगले एकादश की अवधि के लिए अर्थात् 10-11-2004 से
9-11-2005 तक बढ़ाते हैं। प्रतिनिधित्व को बढ़ाई अवधि
के दौरान श्री एस० भारद्वाज, सहायक निदेशक (जहाजरानी)
प्रतिनिधित्व (बूटी) भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

ए० पी० सिंह, निदेशक

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम दिशाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2004

सं० ए-32013/2/95-प्रशा०---राष्ट्रपति, ने भारी उद्योग एवं शोक उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग में स्थाई सहायक निदेशक श्री मदन मोहन को उसी कार्यालय में 28-10-2004 के पूर्वाह्न से 6 महीने की अवधि अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है।

जी० एस० बोथ्याल, निदेशक (प्रशा०)

सूचना-सामान्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(छात्र और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2004

एक सं. 11013/3/2004-स्था. 1—राष्ट्रपति श्री मोहम्मद इस्तिमाज आलम को 22-5-2004 (पूर्वाह्न) से 6500-10500/- रु. के वेतनान में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले) (श्री तसलीमूद्दीन) के प्रथम व्यक्तिगत सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री मोहम्मद इस्तिमाज आलम की प्रथम व्यक्तिगत सहायक के रूप में नियुक्ति भारतीय राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले) के कार्यकाल के साथ कोटमिनस आधार पर अथवा अगले आदेश होने तक होगी और यह 2—342 GI/2004

समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

मोहम्मद मोनीरुज्जमां, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं० ए०-12022/ 01/ 2004-स्था०-I—राष्ट्रपति,
श्री अशोक अग्रवाल, आई० कार० ए० एम० आई० (86) को
दिनांक 29 दिसंबर, 2004 के अखिल से अखिल और सार्वजनिक
वितरण विभाग में, 14300-19300/- रु० के वेतनमान में
निदेशक के रूप में पांच वर्ष की सामान्य अवधि के लिए अर्द्ध
अवधि आदेशों तक, जो भी पहले ही, नियुक्त करते हैं।

मौहम्मद मौतोरुज्जतां, अवर सचिव

स्व.स्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुष विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं० ए० 22012/1/2003 (स्था० I) — डा० सुनंद साहू ने अपना स्थानांतरण कर दिए जाने के परिणामस्वरूप 18 अगस्त, 2004 पूर्वाह्न को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्यो०), केन्द्रीय सरकार स्व.स्थ योजना दक्षिणी दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 18 अगस्त, 2004 पूर्वाह्न को उप सलाहकार (होम्यो०) आयुर्विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एन० के० लखनपाल, अवर सचिव

दृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2004

सं० 19011/401/2004-स्था० 5-राष्ट्रपति, कृषि एवं
सङ्घारिता विभाग में श्री राजगौर सिंह को सहायक आयुक्त
(फसल) के पद पर 10000-325-15200 रु० के वेतनमान
में 1-9-2004 से 1-12-2004 तक तीन महीने के अवधि के
लिए अथवा नियमित पदधारी के जाने, तक इनमें से जो भी
पहले हो, की प्रतिनियुक्ति अवधि बताते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2004

सं० ए० 12025/15/2003 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, दिनांक 5-5-2004 के संसदसदस्य अभिलेखन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधन पर ड० प्रियुत रंजन आचार्य, सहायक पशुधन अधिकारी की सहायक आयुक्त (पशु-लेग) के पद पर तथा डा० रानीत कुमार गुप्ता (पशुधन स्वास्थ्य) की सहायक आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) के पद पर उनकी तरफ नियुक्ति को 14 अक्टूबर, 2004 के बाद छः महीने की अवधि के लिए, अथवा निबंधित पदधारी के आने तक, जो इनमें से पहले हो, तक के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जे० पी० शर्मा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

सं० ए-12022/5/2004-पी०आर०—राष्ट्रपति द्वारा श्री आशुतोष दीक्षित, आई०आर०एल० (आई टो: 87) को दिनांक 21-10-2004 के अपराह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए जैसा कि मंत्री के निजी सचिव के पद हेतु स्वीकार्य है अथवा उनके निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक स्तर पर पंचायती राज मंत्री (श्री मणशंकर अय्यर) का निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

डी० पी० सिंह, उप सचिव

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० 12016/9/एस० सी० डी० (आर० एल० सैन)—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनाधिशुचित जनजाति, खानबदोश और अर्ध-खानबदोश "जनजाति" आयोग के सदस्य-सचिव के पद से श्री अतुल सिन्हा का त्यागपत्र 31-10-2004 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

एस० ए० सिद्धीकी, उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० ईआरबी-I/2004/2/9—श्री के० एन० चावला, प्रमुख निजी सचिव, रेलवे बोर्ड को 22-1-2004 से 12000-16500/- रु० (आर एस आर पी) के वेतनमान में रेलवे

बोर्ड सचिवालय आभिलेखिकीय सेवा के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

वी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 नवम्बर 2004

सं० ए-38012/3/2004-स्था०—पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग से श्री अश्विनी कुमार गौड़, सहायक निदेशक (राजभाषा) अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 31-10-2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

सं० 27/2004 (फा० सं० 25/2(12)/2004) स्था०-I—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अभय कुमार को दिनांक 28-9-04 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13,500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अभय कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवोक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० ए-12026/1/2000-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्रीमती रेणू खेड़ा, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को दिनांक 1-11-2000 (पूर्वाह्न) से श्रम और रोजगार मंत्रालय में 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी० एम० शर्मा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 8th November 2004

No. RS/4(v)/2004/90-Perl—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Prem Shankar Verma as temporary Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500, plus usual allowances admissible under the rules, with effect from the forenoon of the 8th November 2004.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 11th November 2004

No. RS/1/2004/91-Perl—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ravi Kant Chopra, an officer of the Indian Defence Estates Service (1978) as Joint Secretary in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis, for a period of one year, with effect from the afternoon of the 11th November 2004 or until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 8th November 2004

F. NO. 15/35/GN-5281/AN-I/2004—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 21-23 May 2004 and 04th September 2004 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Ram Lal Yadav to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 05th November 2004 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 05th November 2004 upto 04th November 2005.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Protocol Officer will be regulated in terms of R & CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 9th November 2004

No. 14016/9/2004/UTS-II—Under clause (c) of sub-rule (2) of rule 7, read with sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Gian Chand, 3-342 CL/2004

Inspector of Delhi Police (D-I/458) to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2004

No. 20/G/2643-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Baleshwar Rai, IAS (AGMU : 70), as Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of 1st November 2004, until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 17th November 2004

No. I-45014/3/2004-IPS-I—Shri S. Rajan, a promotee Indian Police Service Officer of 1994 batch, borne on the Cadre of Tamil Nadu, shall henceforth be known and recognized as Shri V. S. Rajhan for all purposes.

S. P. VERMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 5th November 2004

No. 11019/34/2004-AIS-III—The President is pleased to direct that Srmt. Sukhdeep Brar, a member of the IAS, borne on the Cadre of Rajasthan (RJ : 79) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of Rule 7 (2) of the AIS (Leave) Rules, 1955.

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 9th October 2004

No. A-12025/4/98-EG—The President is pleased to appoint formally the following officer to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service with effect from the date noted against him :

Name	With effect from
Shri Sandeep Singh	12.1.1998

The above officer is working in the offices under Comptroller and Auditor General of India.

N. P. SINGH, Under Secy.

No. A-12025/1/2004-EG—The President is pleased to appoint the following officers to the Junior Time Scale of

Indian Audit and Accounts Service with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	with effect from
1.	Ms. Attorva Sinha	05.09.2002
2.	Shri Anindya Dasgupta	16.12.2002
3.	Ms. Roli S. Malge	02.09.2002
4.	Shri Vijay Nanalal Kothari	18.12.2002
5.	Ms. Sudha Rajan	02.09.2002
6.	Ms. Suhasini Madhusudan G.	02.09.2002
7.	Shri Rajiv Kumar	02.09.2002
8.	Shri Sanjay Kumar	02.09.2002
9.	Shri Rajesh Gowda MB	02.09.2002

2. All the 9 officers are working in the Offices under the C & AG of India.

N. P. SINGH. Under Secy.

APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110001, the 5th October 2004

No. 1/1/2004-Admn.—Central Government is pleased to appoint Shri B. N. Jha, Assistant of Minisry of Defence (AFHQ) as Section Officer in this Authority on deputation basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- initially for a period of one year or till further orders or abolition of AAIFR whichever is the earliest, w.e.f. 1st September 2004 (FN).

HANWANT KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS SERIOUS FRAUD INVESTIGATION OFFICE

New Delhi-110 003, the 16th November 2004

No. 2/2/2004-Admn. SFIO—The President is pleased to appoint the following Officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs on deputation basis against the posts and from the dates indicated against each for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Service to which belongs	Post to which appointed/ Scale of Pay	Group of Post	Date of Appointment
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	Ashish Verma	IRS	Additional Director Rs. 14300-400-18300/-	'A'	10.09.2003
2.	S. Vasudevan	IA & AS	Joint Director Rs. 12000-375-16500/-	Do.	15.09.2003
3.	Sudhir Dinkar Samant	DGM, SBI	Joint Director Rs. 12000-375-16500/-	Do.	04.09.2003
4.	Sharad Krishna Sharma	DGM, SEBI	Joint Director Rs. 12000-375-16500/-	Do.	03.09.2003
5.	Henry Richard	Indian Company Law Service	Joint Director Rs. 12000-375-16500/-	Do.	31.07.2003
6.	Smt. Medha H. Dalvi	Director (IT), NIC	Addl. Director Rs. 14300-400-18300/- (On secondment basis)	Do.	06.10.2003
7.	Ashok Kumar	Indian Legal Service	Joint Director Rs. 12000-375-16500/- (Post encadred in ILS)	Do.	15.10.2003
8.	Puneet Rastogi	IPS (MT-95)	Joint Director Rs. 12000-375-16500/-	Do.	25.10.2004
9.	Subodh Kumar Ghildiyal	CSS Cadre of MHA	Deputy Director Rs. 10000-325-15200/-	Do.	29.08.2003 (AN)

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
10.	Hira Singh Negi	ITO, Delhi	Senior Assistant Director Rs. 7500-250-12000/-	'B' (Gazetted)	18.09.2003 as Asstt. Dir./ 21.04.2004 as Sr. Asstt. Dir.
11.	G. Ganesh Babu	ITO, Chennai	Senior Assistant Director Rs. 7500-250-12000/-	Do.	5.2.2004 as Asstt. Dir./ 21.4.2004 as Sr. Asstt. Dir.
12.	Prit Paul Singh	Supdt. of Customs, Kolkatta	Sr. Assistant Director Rs. 7500-250-12000/-	Do.	22.9.2004
13.	Dinesh Kumar	Sr. Manager, Indian Bank	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/- (on secondment basis)	Do.	22.08.2003 (AN)
14.	Sanjeev Kumar Gaur	Manager (OB), SBI	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	29.09.2003
15.	Rabi Barua	STA, HQ, M/o Company Affairs	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	29.08.2003
16.	Ravinder Kumar Bakshi	STA, HQ, M/o Company Affairs	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	15.09.2003
17.	Amit Mittal	Manager, SEBI, Mumbai	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	22.09.2003
18.	Santosh K. Nair	ACIO-I, IB	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	01.10.2003
19.	Ashiwine Rathore	ACIO-I, IB	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	01.10.2003
20.	Subhash Chander Sarsonia	Manager (IB) SBI	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	20.10.2003
21.	Mohan Singh	Asstt. Enforcement Officer, Enforcement Directorate	Asstt. Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	17.10.2003 (AN)
22.	Smt. Harpreet Kaur	Scientist-B, NIC	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/- (On secondment basis)	Do.	17.12.2003
23.	G. Ram Mohan Rao	AGM, SEBI, Mumbai	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	27.10.2003
24.	Girraj Singh	Sr. Auditor, O/o CAG	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	29.10.2003 (AN)
25.	Sandeep Agarwal	Asstt. Enforcement Officer, Enforcement Directorate	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	31.10.2003 (AN)
26.	Ved Prakash Verma	Asstt. Enforcement Officer, Enforcement Directorate	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	31.10.2003 (AN)

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
27.	V. Madangopalraj	ACIO-I, IB, Chennai	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	'B' (Gazetted)	24.11.2003
28.	Pramod Beri	Sr. Auditor, O/o C & AG	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	31.03.2004
29.	B. S. Negi	S. Auditor, O/o C & AG	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	31.03.2004
30.	M. O. Roy	Inspector, CBI, ACB, Mumbai	Assistant Director Rs. 6500-200-10500/-	Do.	14.07.2004
31.	N. Ramachandran	CSSS Cadre of M/o Commerce	Private Secretary Rs. 6500-200-10500/-	Do.	29.08.2003 (AN)

SUBODH KUMAR GHILDIYAL, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 8th November 2004

No. A-19011/14/2000-HR-II—The President is pleased to extend the deputation term of Shri S. Bhardwaj, a regular Accountant in this Department on the post of Assistant Director (Shipping) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- for a further period of one year with effect from 10.11.2004 to 9.11.2005 or until further orders. During the extended period of deputation Shri S. Bhardwaj, Assistant Director (Shipping) will not be entitled to draw deputation (duty) allowance.

A. P. SINGH, Director

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi, the 1st November 2004

No. A-32013/2/95-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Madan Mohan, permanent Assistant Director in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises as Deputy Director in the same Office on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 28.10.2004 for a period of 6 months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

G.S. BOTHYAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 5th November 2004

No. 11013/3/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Md. Imtiyaz Alam as 1st PA to the Minister of State (Consumer Affairs) (Shri Taslimuddin) in the pay scale of Rs.

6500—10500/- w.e.f. 22.05.2004 (FN). The appointment of Shri Md. Imtiyaz Alam as 1st PA will be co-terminus with the tenure of Hon'ble MOS (CA) or until further orders and will be regulated as per the instructions issued by DOP&T from time to time.

MOHD. MONIRUZZAMAM, Under Secy.

The 9th November 2004

No. A-12022/1/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Ashesh Agrawal, IRSME (86) as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the afternoon of 29th October, 2004 in the pay scale of Rs. 14300—18300/- for five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MOHD. MONIRUZZAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF AYUSH)

New Delhi, the 9th November 2004

No. A 22012/1/2003-Estt. I—Consequent of his transfer Dr. Sadanand Sahu, relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer (Homo), CGHS South Delhi on the forenoon of 18th August 2004 and assumed charge of the post of Deputy Adviser (Homoeo), on the Deptt. of AYUSH forenoon of 18th August 2004.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Delhi, the 3rd November 2004

No. 19011/401/2004-E.V.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Rajbir Singh in the post

of Assistant Commissioner (Crops) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the Department of Agriculture & Cooperation for a period of three months beyond 1.9.2004 and upto 1.12.2004 or till appointment of a regular incumbent is made, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 4th November 2004

No. A. 12025/15/2003-Admn. I—The President is pleased to continue further the adhoc appointment of Dr. Bidyut Ranjan Acharya, Assistant Livestock Officer as Assistant Commissioner (Rinderpest) and Dr. Rajneesh Kumar Gupta, Assistant Livestock Officer as Assistant Commissioner (Livestock Health) on the same terms and conditions as per Notification of even number dated 5.5.2004 for a period of six months beyond 14th October 2004 or till the regular incumbents join, whichever is earlier.

J. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110 001, the 26th October 2004

No. A-12022/5/2004-PR—The President is pleased to appoint Shri Ashutosh Dikshit, IRS (IT. 87) as Private Secretary to Minister of Panchayati Raj (Shri Manishankar Aiyar) at the level of Director with effect from the afternoon of 21.10.2004 for a period of 5 years as admissible to PSs to Ministers or till he ceases to function as PS or until further orders, whichever event occurs the earliest.

D. P. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 16th November 2004

No. 12016/9/2003-SCD (R. L. Cell)—The President is pleased to accept the resignation of Shri Atul Sinha, from the post of Member-Secretary, National Commission for Denotified Tribes, Nomadic and Semi-Nomadic 'Tribes' w.e.f. 31.10.2004 (AN).

S. A. SIDDIQI, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th November 2004

No. ERB-I/2004/2/9—Shri K. N. Chawla, Principal Private Secretary, Railway Board has been appointed as Senior Principal Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographer's Service in the scale of Rs. 12000-16500/- (RSRP) with effect from 22.1.2004.

V. N. MATHUR, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110 011, the 5th November 2004

No. A-38012/3/2004-Estt.—Shri Ashwini Kumar Gaur, Assistant Director (Official Languages), in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, on attaining the age of superannuation, has retired from Government service w.e.f. 31.10.2004 (AN).

S. K. SHAHI, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th October 2004

No. 27/2004, F. No. 25/2 (13)/2003-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Abhay Kumar to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000-13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 28.09.2004 (FN).

2. Shri Abhay Kumar will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 11th November 2004

No. A-12026/1/2000-Adm. I—The President is pleased to appoint Smt. Renu Khera, Library & Information Assistant as Assistant Library & Information Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Ministry of Labour & Employment w.e.f. 01.11.2004 (FN).

C. M. SHARMA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004